


वेदना



प्रणेता:—

मंगलदत्त त्रिपाठी 'सुमन'